

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II,  
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 10<sup>th</sup> August, 2011

S.O. 2429 (E) - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government, on the recommendations of the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, has approved the institutions approved by the said National Committee, mentioned in column (2) of the Table below, and approves the eligible projects or schemes specified in the column (3) of the said Table and also specifies in the column (4) of the Table the maximum amount of such cost which may be allowed as deduction under the said section 35AC for the period of approval, namely -

TABLE

Serial Number	Name of the Institution	Project or scheme and estimated cost thereof	Maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35AC <sup>1</sup>
	(2)	(3)	(4)
	The Indian Municipality and other Communities Development Trust, Village PO Sankarajole, PS Mangum, District Bishnupur, West Bengal-751251.	Vocational Training Centre for Rural women entrepreneurs, promotion of ITI/AIDC.	Rs. 3.25 crore including costs levied at Rs. 25 lakh for three financial years commencing with 2011-12 to 2013-14.
2.	Oron Haryana Prasthhan-Fard Fundation, 87, Badapsar Industrial Estate, Gurgaon, Haryana, Pin-122013, Maharashtra.	Community Life Line in Scheme.	Rs. 37.50 lakh for three financial years commencing with 2011-12 to 2013-14.

3	Seva Anandam Ramesh Hassibale Ayurvedic Hospital Trust, 59002, Rasra Path, Pune-411011.	Expansion of infrastructure, and improvement in services	Rs. 22.96 crore, including corpus fund of Rs. 5.40 crore for three financial years commencing with 2011-12 i.e. 2011-12, 2012-13 & 2013-14.
4	Mahagaurav Medical Society, College Road Vadod, District Kutch, Gujarat	For purchase and purchase, equipments and machineries for cancer diagnosis	Rs. 31.43 crore including corpus fund of Rs. 7.00 crore for five financial years commencing with 2011-12 i.e. 2011-12, 2012-13 & 2013-14
5	Ram Mohan Mission, 152/89, Lake Gardens, Kolkata West Bengal-700015	Expansion of existing RAM MOHAN MISSION EYE HOSPITAL into 200 bedder RAM MOHAN MISSION GENERAL HOSPITAL.	Rs. 30.88 crore including corpus fund of Rs. 10 crore for three financial years commencing with 2011-12 i.e. 2011-12, 2012-13 & 2013-14
6	Shri Agastya's Charitable Trust, No. 5/1, A. J. Veda Temple, No. 1, Am. Vudha, Gauda road, Sivoli, District surat, Gujarat-394601.	'Eye Hospital' at the place of the existing health centre of the trust	Rs. 1.35 crore for three financial years commencing with 2011-12 i.e. 2011-12, 2012-13 & 2013-14.
7	Ushron Charities, F.No. 5/6, Nagarymala, Tulsi, 531201, M.C. District, Chhara Pradesh.	Rehabilitation of disabled and economically weaker section children through vocational courses.	Rs. 1.85 crore for two financial years commencing with 2011-12 i.e. 2011-12, 2012-13
8	Arora Educational Foundation, Mangaldevi, Mangalore, D.K. Cannara - 575 007	Expansion & renovation of educational institutions.	Rs. 21.95 crore including corpus fund of Rs. 0.35 crore for three financial years commencing with 2011-12 i.e. 2011-12, 2012-13 & 2013-14.

9.	Dr. Parvashah Ambedkar Vaidyakiya Parishad, Opposite Gajanan Mahadevi Mandir, Gadhada Road, Amravati.	Expansion/Improvement of already running, Hospital and Health-care Centres/Programs for rural poor.	Rs. 15.81 crore for three financial years commencing with 2011-12 & 2011-12, 2012-13 & 2013-14.
10.	Educational Trust of Diocese of Karnataka, Bishop's House, A.D.No.1, Tumkur Road, P.O. Kodlundi District, Karnat Kante- 522517.	Expansion of the existing 37 classes and increase in the number of inmates in boys as well as girls apartments which are to be built and maintained by the trust.	Rs. 25 crore for three financial years commencing with 2011-12 i.e. 2011-12, 2012-13 & 2013-14.
11.	Dr. J. J. Jadhav Trust, Aadhar, Molga Road, A.P. Kulkarna, District, Maharashtra Maharashtra-425413.	Expansion project for the expansion and maintenance of present activities in vocational courses for girls, having vocational training course.	Rs. 14.52 crore including Rs. 2 crore as a corpus fund for three financial years commencing with 2011-12 i.e. 2011-12, 2012-13 & 2013-14.
12.	Amrta Sewa Samithi, Dist. Sewa No.001, Sulocane Gardens, 7-11/4 B Termini Road, Aviladi, Tumkur District, Tumkur-522502	Welfare for the Disabled.	Rs. 8.76 crore for maintaining expenses of Rs. 2000 crore as corpus fund for three financial years commencing with 2011-12 i.e. 2011-12, 2012-13 & 2013-14.
13.	Ashwini & P. Abdul Latif Charitable Trust, Nizam, 21 <sup>st</sup> floor, Nandan Point, Mumbai-400021.	Maintenance of Present activities	Rs. 19.76 crore for three financial years commencing with 2011-12 i.e. 2011-12, 2012-13 & 2013-14
14.	Nurjehan Charitable Trust, B, Jolly Bazaar, No. 1, 1B, New Marine Line, Mumbai -400079 Maharashtra	Welfare for the "Aged & Sick"	Rs. 5.34 crore for three financial years commencing with 2011-12 i.e. 2011-12, 2012-13 & 2013-14

15.	Srima Devi P. Kulkarni Gramodhyog Trust 3, D. N. A. Apartment, Nr. Narmadapur Society, Pimpri.	Learning center for youth and women.	Rs. 4.57 crore for three financial years commencing with 2011-12 i.e. 2011-12, 2012-13 & 2013-14.
16.	Ahmanazad, Gajumal Ujjari Sector Citizen's Forum, 164 B. S. Plaza, Dadasa Road, T. J. M. Mudhga Pimpri 411 019.	Sewalhar Ashram.	Rs. 48.71 crore, including corpus fund of Rs. 21 crore for three financial years commencing with 2011-12 i.e. 2011-12, 2012-13 & 2013-14.

1. This notification shall remain in force for a period of two years in relation to financial years 2011-12 and 2012-13 in respect of project or scheme mentioned at serial Nos. 1 and 7 and for a period of three years in relation to financial years 2011-12, 2012-13 & 2013-14 in respect of projects or schemes mentioned at serial numbers 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 16 of the schedule.

(No. 81/2011-12/N.C./913.5/2611-80(NVI/COM))

*(Signature)*  
 Navena Chaudhari  
 Director (National Committee)



4.	<p>उत्कलिका नैतिकता सोसायटी, वालेज रोड, नांदेड, जिल्हा अंध शुद्धता</p>	<p>होमर विभाग के लिए वास्तु आदि वहीनों के उद्देश्य लक्ष्य अनुदान</p>	<p>2012-2013 एवं 2013- 2014 हेतु 3.30 करोड़ रुपये कार्यसूची निर्दिष्ट जलिन 22.83 करोड़ रुपये तक 2011-12 से आरंभ होने वाले वर्ष 7 को वित्तीय वर्ष के लिए अर्थात् 2011-2012, 2012-2013 एवं 2013- 2014 हेतु 2.00 करोड़ रुपये को कार्यसूची निर्दिष्ट होतेत 21.47 करोड़ रुपये</p>
5.	<p>एम. पी.एल. मिशन, 150050 लोक मान्य, जंगलवा, नारायण रोड - 300045</p>	<p>गौरीदास एम. गौरीदास मिशन नाम अनुदान का 2000 करोड़ों वाले समन्वित मिशन अन्तर्गत ए.सि.एल.के. के तहत विकास</p>	<p>वर्ष 2011-12 से आरंभ होने वाले वर्ष 7 को वित्तीय वर्ष के लिए अर्थात् 2011-2012, 2012-2013 एवं 2013- 2014 हेतु 13 करोड़ रुपये को कार्यसूची निर्दिष्ट होतेत 30.88 करोड़ रुपये</p>
6.	<p>श्री अनासोमाना रिस्टोरेन्ट ट्रस्ट, निबर रोड एम.पी. रोड, नांदेड, जिल्हा अंध शुद्धता सोसायटी, जेगा टून्स गुडसन 36460</p>	<p>होमर के नैतिकता हेतु अन्तर्गत के अनुदान का 200 करोड़ रुपये निर्दिष्ट</p>	<p>वर्ष 2011-12 से आरंभ होने वाले वर्ष 7 को वित्तीय वर्ष के लिए अर्थात् 2011-2012, 2012-2013 एवं 2013- 2014 हेतु 1.35 करोड़ रुपये</p>
7.	<p>श्री अनासोमाना रिस्टोरेन्ट ट्रस्ट, निबर रोड एम.पी. रोड, नांदेड, जिल्हा अंध शुद्धता सोसायटी, जेगा टून्स गुडसन 36460</p>	<p>श्री अनासोमाना रिस्टोरेन्ट ट्रस्ट के अनुदान का 200 करोड़ रुपये निर्दिष्ट</p>	<p>वर्ष 2011-12 से आरंभ होने वाले वर्ष 7 को वित्तीय वर्ष के लिए अर्थात् 2011-2012, 2012-2013 हेतु 1.35 करोड़ रुपये</p>
8.	<p>श्री अनासोमाना रिस्टोरेन्ट ट्रस्ट, निबर रोड एम.पी. रोड, नांदेड, जिल्हा अंध शुद्धता सोसायटी, जेगा टून्स गुडसन 36460</p>	<p>श्री अनासोमाना रिस्टोरेन्ट ट्रस्ट के अनुदान का 200 करोड़ रुपये निर्दिष्ट</p>	<p>वर्ष 2011-12 से आरंभ होने वाले वर्ष 7 को वित्तीय वर्ष के लिए अर्थात् 2011-2012, 2012-2013 एवं 2013</p>

			2014 हेतु 7.25 करोड़ रुपये की वारंट 'अ' व 'ब' 21.88 करोड़ रुपये
10.	श्री 0 भावासाहेब अकादमिक इंटरमीडियेट अंतःस्थापना, नगर नगर 2 अक्षांश उत्तर 75 अक्षांश मालदीव परीक्षाओं आदिवासी	राजीव गंधी के लिए नई से बना रहे अस्पताल की (अ) केयर सेक्टर (आर्य समाज) का विस्तार कर दीर्घकाल	वर्ष 2011-12 से आरंभ होने वाले वर्ष के तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 2011-2012, 2012-2013 एवं 2013-2014 हेतु 19.01 करोड़ रुपये
11.	एजुकेशनल ट्रस्ट, नगर आर्य समाज, शिक्षा हॉस्टल, पीठ नगर नगर 1 अक्षांश उत्तर, पीठ नगर जिला नईकोट, के.आ.ए.ए. - 222817	एच.ए. अस्पताल बनाए जा रहे विस्तार - 25 बेडों का विस्तार तथा अस्पताल की वार्डों की मरम्मत एवं मरिचों को रखवा के जाने	वर्ष 2011-12 से आरंभ होने वाले वर्ष के तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 2011-2012, 2012-2013 एवं 2013-2014 हेतु 35 करोड़ रुपये
12.	के.टी.एस.एस.पी. अकादमिक अकादमि, अनादीवासी मोतानी रोड, भावासाहेब अकादमिक जिला नईकोट, के.आ.ए.ए. - 222817	आर्य समाजिक कॉलेज और मालदीव अकादमिक अकादमिक अकादमि कॉलेज की नवीन संरचनाओं का विस्तार एवं स्वरचना के विस्तार की परियोजना	वर्ष 2011-12 से आरंभ होने वाले वर्ष के तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 2011-2012, 2012-2013 एवं 2013-2014 हेतु 2 करोड़ रुपये की वारंट निधि अर्थात् 14.12 करोड़ रुपये
13.	अकादमिक संगठन पीठ नगर 20-201 सुलोचना गार्डन, 7-4-14-15 अक्षांश उत्तर, नईकोट जिला नईकोट, नईकोट 222817	पीठ नगर, पीठ नगर	वर्ष 2011-12 से आरंभ होने वाले वर्ष के तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 2011-2012, 2012-2013 एवं 2013-2014 हेतु 25.00 करोड़ रुपये की वारंट निधि अर्थात् 37.6 करोड़ रुपये का वारंट 'अ' व 'ब'
14.	अचाराई एड इंग्लिश अकादमि, नईकोट, नगर, नईकोट, के.आ.ए.ए. - 222817	नईकोट नईकोट की नई, नई	वर्ष 2011-12 से आरंभ होने वाले वर्ष के तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 2011-2012, 2012-2013 एवं 2013-

			2014 हेतु 30.76 करोड़ रुपये
14	नालीपन संशोधन केंद्र, 3 गोल बाग, नं. 1, 10, न्यू ग्रीन हाइव, मुम्बई - 400020, महाराष्ट्र	ए इन्वॉसिग हेल्थ	एवं 2011-12 से आरंभ होने वाले वर्ष में तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 2011-2012, 2012-2013 एवं 2013-2014 हेतु 15.38 करोड़ रुपये
15	श्री लक्ष्माय नदी सांशोधन केंद्र, 19 मूनड जलडोम, सिद्ध, नृसिंहराम रोड चरो, ठाणुरा, महाराष्ट्र	चुवाडी और निधान के लिए परिसरगत सेवा	वर्ष 2011-12 से आरंभ होने वाले वर्षों के लिए वित्तीय वर्ष के लिए अर्थात् 2011-2012, 2012-2013 एवं 2013-2014 हेतु 4.57 करोड़ रुपये
16	जलजी संशोधन विद्यालय परिसर, 114 दुर्गा नाला, देवर रोड, उर्जिन, मायडंडा 400011	सेवागत सेवा	वर्ष 2011-12 से आरंभ होने वाले वर्षों में तीन वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 2011-2012, 2012-2013 एवं 2013-2014 हेतु 31 करोड़ रुपये की राशि अर्थात् 10.33 करोड़ रुपये

उक्त अधिसूचना क्र. 14 की धारा 4(7) पर अधिसूचित परिचयनाम का अंशक के तहत विवरण वर्षों 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान दे ली वर्षों में अधिसूचित के लिए उक्त अधिसूचना से एक सौ 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 18 पर अधिसूचित परिचयनाम का अंशक के तहत वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 से 2013-14 के वलें में उक्त वर्षों की अधिसूचित के लिए सूचित रुकेंगे।

प्रो. <sup>31</sup> 200102 पर 09 09 2011/3/2011-11/अ अधिसूचना

अधीनस्थ,   
 \*दीपक शर्मा  
 निदेशक/राष्ट्रीय समिति,



(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,  
SECTION 3, SUB-SECTION (ii),  
GOVERNMENT OF INDIA,  
MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11<sup>th</sup> August, 2011

S.O. (7) 1861-2008 as a notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) on the S.O. 705(7) dated the 26<sup>th</sup> May, 2008, issued under sub-section (ii) and with clause (b) of the Taxation in section 85(5) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified, at serial number 2, "Urban Doctors and Boarding for Senior Clinics Association" by John Deyane and Boarding for Senior Clinics Association, 329, Masjid Mohi, South Extension Part II, New Delhi - 110049, as an eligible project or scheme for a period of three years commencing with financial year 2007-08 and which was extended for one year by notification number S.O. 2375(2) dated 3<sup>rd</sup> October, 2008 for a period of three years commencing with financial year 2008-09;

And whereas the said project or scheme has failed to attain the said six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a formal recommendation under sub-rule (a) of rule 113A of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (ii) and with clause (b) of the Explanation to section 85(5) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Urban Doctors and Boarding for Senior Clinics Association" being carried out by John Deyane and Boarding for Senior Clinics Association, 329, Masjid Mohi, South Extension Part-II, New Delhi - 110049, without any change in the total cost of Rs.1.75 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with financial year 2011-12 to 2013-14 to 2014-15.

SO 82 (2011) (1) No. 7127813700-1-30(198) 1-02861

*(Signature)*

Navleen Chaudhri  
Director, Social Committee



TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,  
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11<sup>th</sup> August, 2011

S. 1 (2)(D) (ii). Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1993 dated 13<sup>th</sup> March, 2005, in pursuance of clause (ii) of the explanation to section 22A(2) of the Income-tax Act, 1961 (17 of 1961), the Central Government had notified in serial number 22, "Comprehensive and integrated day education for rural children of 3 to 12 years age group" by Vidyanidhi Trust, New Delhi, Fifth Street, Ashramdas Nagar, Adyar, Chennai-600 021, Tamilnadu, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with the financial year 2008-09.

And whereas the said project or scheme is being extended beyond three years,

and whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, in accordance with the provisions of clause (ii) of the explanation to section 22A(2) of the Income-tax Act, 1961 for extending the said project or scheme for a further period of three years,

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 11(2)(D) (ii) (a) (b) clause (ii) of the explanation to section 22A(2) of the Income-tax Act, 1961 (17 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Comprehensive and integrated day education for rural children of 3 to 12 years age group" being carried out by Vidyanidhi Trust, New Delhi, Fifth Street, Ashramdas Nagar, Adyar, Chennai-600 021, Tamilnadu, without any change in the approved cost of Rs. 18 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three financial years commencing with the financial year 2011-12, 2012-13 & 2013-14.

Sd/- (2011) (T.No.3/27815/2005-06) (NAT/105/2011)

*(Signature)*  
Narender Chandra  
Member (National) Committee



NOTICE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-III,  
SECTION 3 AND SUB-SECTION (iii)  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11<sup>th</sup> April, 1961

S.O. 15673—The Scheme for Application of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number 801, 35308 dated 27 October, 1958, in so far as clause (b) of the explanation to section 55AC of the Income-tax Act, 1951 (13 of 1951), of the Central Government has not been amended number 5, "Free Medical care for miscellaneous poor of Himachal Pradesh" by The Kalgidhar Society, Bara Sahib, Muz Region District, Simla, Himachal Pradesh 175101, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2002-03.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years.

And whereas the National Committee for Extension of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (2) of rule 136 of the Income-tax Rules, 1952 for extending the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of the explanation to section 55AC of the Income-tax Act, 1951 (13 of 1951), hereby notifies the scheme or project "Free Medical care for miscellaneous poor of Himachal Pradesh" which is being carried out by The Kalgidhar Society, Bara Sahib, Muz Region District, Simla, Himachal Pradesh 175101, without any change in the approved cost of Rs. 5.00 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three financial years commencing with the financial year 2002-03 to 2004-05 (2003-04 & 2004-05).

(No. 2011-17/Na.7/200-2003/01-855(NAC/COM))

*M. V. Chandra*  
Member (Finance)  
Secretary (National Committee)



TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II,  
SECTION 3, SUB-SECTION (2)  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 10<sup>th</sup> August, 2011

S.O. 1264 (1) is hereby notified that in pursuance of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) notification S.O. 1250(E) dated 18<sup>th</sup> May, 2009, issued under clause (b) of the explanation to section 253C of the Income-tax Act, 1961 (25 of 1961), the Central Government has notified a special Chapter 5, "Special Karnataka-Deccan Rural Development Project (KRD-DR)" by Sri V.C. Deshpande Memorial Trust, 1 Vyag Vidyanagar, Haliyal-581 229, Karnataka. The term of the said project or scheme for a period of two years beginning with financial year 2009-10.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond two years,

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a favourable recommendation under sub-rule (5) of rule 113 of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) read with clause (b) of the explanation to section 253C of the Income-tax Act, 1961 (25 of 1961), hereby notifies the scheme or project of the said Special Deccan Rural Development Project (KRD-DR) which is being carried out by Sri V.C. Deshpande Memorial Trust, 1 Vyag Vidyanagar, Haliyal-581 229, Karnataka, without any change in the approval limit of Rs. 100 crore, to run for a period or scheme for a further period of three financial years commencing with the financial year 2011-12 to 2013-14 & 2013-14.

New Delhi, the 10<sup>th</sup> August, 2011. (Sd/-) 27013279130047,00140

*M. K. Srinivasan*  
Member, Chairman  
Director, National Committee





NOTICE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,  
SECTION 3, SUB-SECTION (ii),  
GOVERNMENT OF INDIA,  
MINISTRY OF FINANCE,  
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11<sup>th</sup> August, 2011

(505)(F)  
S.O. Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number F.O. 150(F) dated the 2<sup>nd</sup> February, 2008 issued under sub-section (1) and sub-section (ii) of the Explanation to section 25A of the Income-tax Act, 1961 (3 of 1961), the Central Government has notified an article titled "Aid to the Central Institute of Educational Technology by Bhoora Foundation, Thane & its branch, Jharkhand, Mumbai - 400049 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2005-2006 for which was extended further vide notification number F.O. 235(S) dated 3<sup>rd</sup> October, 2008 for a further period of three years beginning with the financial year 2007-08.

And whereas by notification number F.O. 148(F) dated the 3<sup>rd</sup> October, 2008, the estimate of expenditure, Rs. 12.32 crore to Rs. 49.46 crore;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the Ministry of Education for the Department of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, for the further recommendation under sub-section (3) of rule 114 of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years,

1003, Mumbai - 400018 Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 25A of the Income-tax Act, 1961 (3 of 1961), hereby notifies the article or project titled "Aid to students in Maharashtra" which is being carried out by Bhoora Foundation, Thane & its branch, Jharkhand, Mumbai - 400049 with an estimated expenditure of Rs. 49.46 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three financial years commencing with the financial year 2011-12, 2012-13 & 2013-14.

[No. 86/2011-F.O. (N) (C) (S) (N) (I) - SO (N) (I) (C) (S)]

*(Signature)*  
Naveen Chandra  
Director (National Commission)



ISSUED PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART-II,  
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)

**NOTIFICATION**

New Delhi, 27th July 11<sup>th</sup> August, 2011

S.O. 1326-11.- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1412/11 dated the 19<sup>th</sup> October, 1993, issued under sub-section (ii) read with clause (iii) of the Explanation to section 254C of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified a social number 4 for Venu Tree Institute and Research Centre at Sheikh Sarai, New Delhi, by Venu Charitable Society, C-6, South Extension, Part-II, New Delhi, as an eligible project or scheme under section 254C of the Income Tax Act, 1961 with assessment year 1993-1994 which was extended further vide notification number S.O.2246/11 dated the 1<sup>st</sup> April, 1999 for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000 which was extended further vide notification number S.O.1248/11 dated the 18<sup>th</sup> October, 2001 for a period of two years beginning with assessment year 2002-2003 which was extended further vide notification number S.O.735/11 dated the 25<sup>th</sup> May, 2005 for a period of two years beginning with financial year 2004-2005 and which was extended further vide notification number S.O.1194/11 dated the 10<sup>th</sup> July, 2007 for a period of three years beginning with financial year 2007-08,

and whereas it would appear on records to be likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 117 of the Income Tax Rules, 1962 for extension of the said project or scheme for a further period of two years;

Now, therefore, the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (ii) read with clause (iii) of the Explanation to section 254C of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of the said project or scheme by Venu Tree Institute and Research Centre at Sheikh Sarai, New Delhi, which is being carried out by Venu Charitable Society, C-6, South Extension, Part-II, New Delhi, with any change in the expenditure of Rs. 126,00,000/- as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with financial year 2011-12, 2012-13 & 2013-14 with a direction that the financial year 2010-11 has already lapsed, hence no further extension of section 254C of Income Tax Act, 1961 shall be available for the financial year 2010-11.

[No. 27-2011-11 (N.C.P.S.E.W.)-2011-2012 (S.O.1326/11)]

*(Signature)*

Naveen Chandra  
Director, National Committee



PRINTED AND PUBLISHED BY THE GOVERNMENT OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,  
SECTION 3, SUB-SECTION (1)  
GOVERNMENT OF INDIA,  
MINISTRY OF FINANCE,  
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

No. 32, dated the 1<sup>st</sup> August 2011

S.O. 11567(C) Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 11471 dated the 8<sup>th</sup> August 2005, issued under sub-section (1) and with clause (b) of the Exemption clause in section 114C of the Income-tax Act, 1961 (17 of 1961), the Central Government, has notified in serial number 4, "Comprehensive Rehabilitation of Dependent persons and closely affected families" by The Journey Mission Trust India, CN. Bhawan, 15 Park Road, Fort Marg, New Delhi - 110001, as an eligible project or scheme for a period of three years commencing with financial year 2005-06 and until such further notification in number S.O. 29056 dated 2<sup>nd</sup> October 2008 for a further period of three years commencing with the financial year 2008-09;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Extension of Social and Welfare Work is being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-section (1) of rule 117 of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and with clause (b) of the exemption clause in section 114C of the Income-tax Act, 1961 (17 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Comprehensive Rehabilitation of dependent persons and closely affected families" being carried out by The Journey Mission Trust India, CN. Bhawan, 15 Park Road, Fort Marg, New Delhi - 110001, without any change in the approved limit of Rs. 52 crores as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2011-12 up to 2013-14, 2014-15 and 2015-16.

(No. 32 dated the 1<sup>st</sup> August 2011) (S.O. 11567(C))

*M. Chandrababu Naidu*  
Governor-Chief  
Director, National Committee



(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART II,  
SECTION 3, SUB-SECTION (3)  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11<sup>th</sup> August, 2011

NOTIFICATION (No. 1) in pursuance of notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number SO.429/2010 dated 12<sup>th</sup> November, 2010, under clause (3) of the Explanation to section 35AD of the Income-tax Act, 1961 (19 of 1961), the Central Government hereby issues the following notification, "Farmers Rehabilitation Project providing education to 1,00,000 farmers children and assistance to 2000 self help groups of women and counselling and medical help" of State Government of Karnataka, Awardee: (1), Kulsan District, Kankina (900525), as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2011-12.

And extends the said project or scheme for a period beyond three years;

And whereas the National Committee on Economic, Social and Technical Aspects, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, make a further extension of the said project or scheme for a further period of three years.

Whereas the Government of Karnataka, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) and with clause (b) of the Explanation to section 35AD of the Income-tax Act, 1961 (19 of 1961), hereby notified the scheme or project "Farmers Rehabilitation Project providing education to 1,00,000 farmers children and assistance to 2000 self help groups of women and counselling and medical help" which is being carried out by State Government of Karnataka, Awardee: (1), Kulsan District, Kankina (900525), without any change in the approved cost of Rs. 4000000000 as notified by the Government of Karnataka for a period of three financial years commencing with the financial year 2011-12 i.e. 2011-12, 2012-13 & 2013-14.

No. 59/2011-12 (No.Y.27815/2011-12) (N.A./COBE)

  
Narain Chandra  
Director (National Committee)





TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,  
SECTION 3, SUB SECTION (iii)  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1<sup>st</sup> August, 2011

1A24

30. Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 851(F) dated the 1<sup>st</sup> July, 1999, issued under sub-section (1) as well clause (b) of the Explanation in section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (27 of 1961) for Central Government for Public Undertaking number 1, "Mid-day Meal Scheme in village schools of Bangalore" by Mani Sreenivasiah, V In Mani, Sr. In, Red House Road, Bangalore - 560001, as an eligible project or scheme for a period of two years beginning with assessment year 1999-2000, which was extended further vide notification number S.O. 237(F) dated the 1<sup>st</sup> May, 1999 for a period of two years beginning with assessment year 2000-2001, which was extended further vide notification number S.O. 552(L) dated the 25<sup>th</sup> June, 2001 for a period of two years beginning with assessment year 2001-2002, which was extended further vide notification number S.O. 688(F) dated the 13<sup>th</sup> June, 2002 for a period of one year beginning with assessment year 2002-2003, which was extended further vide notification number S.O. 1497(L) dated the 27<sup>th</sup> March, 2005 for a period of two years beginning with financial year 2004-2005, which was extended further vide notification number S.O. 1497(L) dated the 27<sup>th</sup> September, 2006 for a period of two years beginning with financial year 2006-2007 and which was extended further vide notification number S.O. 1309(F) dated the 25<sup>th</sup> March, 2009 for a period of three years beginning with financial year 2009-10.

And whereas by notification number S.O. 204(F) dated the 27<sup>th</sup> March, 2007, the estimated cost was enhanced from Rs. 200 lakh to Rs.15.00 lakh vide notification number S.O. 1311(F) dated the 29<sup>th</sup> November, 2009 the estimated cost was further enhanced from Rs. 5.00 lakh to Rs.30.00 lakh and vide notification number S.O. 1407(F) dated the 27<sup>th</sup> September, 2009 the estimated cost was further enhanced from Rs.30.00 lakh to Rs.60.00 lakh.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years.

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, constituted by the Government of India, in the Ministry of Finance, has, in its report, made a favourable recommendation under rule 21 of the 1961 Act of the Government of India, for enhancing the project cost from Rs. 50 lakh to 75 lakh (increasing the benefits of a total area of 100,000 sq. ft. to 1,50,000 sq. ft. in 18 villages of Karnataka).

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (b) of the Explanation in section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (27 of 1961), hereby notified for the purposes of clause (b) of the Explanation in section 35AC of the Income-tax Act, 1961, as an eligible project or scheme for a period of two years beginning with assessment year 2011-12, which is being carried out by Mani Sreenivasiah, V In Mani, Sr. In, Red House Road, Bangalore - 560001.

He further issued the said notification no. 504/2015-15 on 27<sup>th</sup> Dec, 2015, to the following effect, namely :-

“In the case mentioned in the Table against serial number 4, in column (3), relating to purchase amount of cost to be allowed as deduction under section 35(4), for the letters, figures and word “Rs. 50.00 lakh”, the letters, figures and word “Rs. 75.00 lakh” shall be substituted.”

[No. 60/2015/15 (29/12/2015) (NAT/COM)]

*Md. Anwar Hossain*

**Naveen Chandra**  
Director, National Committee

(आगत के अनुसार आसाधारण रूप 1. अक्टूबर-3, अक्टूबर (10) ई प्रकाशार्थ)

भारत सरकार

वित्त विभाग

(खजाना विभाग)

**अधिसूचना**

12 दिल्ली दिनांक 11 अक्टूबर, 2011

संख्या 18 64 (अ०); जबकि आखर अधिसूचना, 1861(1981 या 43) से धारा 38 का न के सम्बन्ध में क्रम 12 (अ०) के तहत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त विभाग (आन्तरिक विभाग) की दिनांक 2 जुलाई 1998 की अधिसूचना सं० सं० 100 489 (अ०) द्वारा केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा वित्त विभाग सं० 12, रक्षा अन्तर्गत सं० सं० 100001 द्वारा बंगलौर के 18 भूखंडों में दोनकर का मोबाइल योजना के निर्धारण वर्ष 1997-1998 में प्रारंभ होने वाले वर्ष से पूर्व वर्ष 10 अक्टूबर के लिए एक पाठ परिवर्तन आदेश स्वीकृत के रूप में क्रम सं० 4 पर अधिसूचना, दिनांक 27 अक्टूबर, 1987 के दिनांक 11 अक्टूबर 1999 की अधिसूचना सं० सं० 100 317 (अ०) द्वारा निर्धारण वर्ष 2000-2001 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से पूर्व वर्ष की कतिपय के लिए बकाया गया था; दिनांक 20 अक्टूबर 2001 की अधिसूचना सं० सं० 100 320 (अ०) द्वारा निर्धारण वर्ष 2002-2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से पूर्व वर्ष की कतिपय के लिए बकाया गया था; और दिनांक 25 अक्टूबर, 2002 की अधिसूचना सं० सं० 100 388 (अ०) द्वारा निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से पूर्व वर्ष की कतिपय के लिए बकाया गया था; और दिनांक 23 अक्टूबर, 2005 की अधिसूचना सं० सं० 100 388 (अ०) द्वारा निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से पूर्व वर्ष की कतिपय के लिए बकाया गया था; और दिनांक 25 अक्टूबर, 2008 की अधिसूचना सं० सं० 100 407 (अ०) द्वारा निर्धारण वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से पूर्व वर्ष की कतिपय के लिए बकाया गया था; और दिनांक 25 अक्टूबर, 2008 की अधिसूचना सं० सं० 100 407 (अ०) द्वारा निर्धारण वर्ष 2006-2010 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से पूर्व वर्ष की कतिपय के लिए और बकाया गया।

और जबकि दिनांक 27 अक्टूबर, 1987 की अधिसूचना सं० सं० 100 317 (अ०) द्वारा अनुमानित न्यूनतम का 2.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 15.00 लाख रुपये किया गया था; दिनांक 27 अक्टूबर, 2003 की अधिसूचना सं० सं० 100 1371 द्वारा अनुमानित न्यूनतम का 2.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 30.00 लाख रुपये किया गया था और दिनांक 4 अक्टूबर, 2006 की अधिसूचना सं० सं० 100 1407 द्वारा अनुमानित न्यूनतम का 30.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 50.00 लाख रुपये किया गया था।

और जबकि एक परिगणन से करने के लिए उन्हें ही अधिक करने की आवश्यकता है;

और जबकि शरणाधिक और अधिक करणों की अधिसूचना के लिए राष्ट्रीय समिति का संस्थापन का काम पर कि नवत परिवर्तन अधिकांश न्यायिक रूप में निष्पादित की जा रही है इस समिति के अध्यक्ष नियुक्त 1982 के क्रिया 11 का अनु वि० 10 के अंतर्गत अंतः परिवर्तन अधिकांश समिति की नियुक्त का मत से सं० सं० 100 100 द्वारा राज्य का बजट 19800 अक्टूबर के लिए एक के 18 अक्टूबर 1980 न्यायिक अधिकांश का अधिकांश के अंतर्गत पर जाने बहकाने 2000 न्यायिक अधिकांश के निष्पादित में है।

इसलिए, जय. केंद्रीय सचिव सरदार अविधि 1981 (1981) का 133 की धारा 35 का 2 के  
संशोधन के लिए (अ) के साथ मजिस्ट्रेट अधिनियम (1) द्वारा बहल: सीनियर का प्रयोग करने हुए (क)  
गणित सेना संग, दिल्ली नारिक, सं0 12, 244 राज रोड, बंगलूर - 560001 द्वारा यह है जो कि  
केन्द्र के 3 स्तरी में जोड़ने के लिए योजना को परिष्कारना अपना समेत जो परधारा 30 के अधिनियम  
करती है।

(ख) 'अनुसूची 2' द्वारा, 1926 की अधिनियम सं0 4 का 489 (सं0) को 2 में परिवर्तित  
करा है और अधिनियम करती है, नाम है।

उक्त अधिनियम से तात्पर्य है कि सं0 4 के धारा (4), जोकि धारा 35 का 2 के अधिनियम  
अधिनियम के रूप में अधिनियम अधिनियम अधिनियम से संबंधित है, में 1981.02 तक अपने अधिनियम  
अधी और शब्दों के स्थान पर 1975 तक अपने अधिनियम, उनके और अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम।

(सं0 12/2011); नम0सं0-27015/3/2011-सं0(सं0सं0)

श्री 2011  
मनीष चन्द्र

निदेशक(सं0सं0) अधिनियम

NOTICE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II,  
SECTION 3, SUB-SECTION (II)  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
Department of Revenue;

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11<sup>th</sup> August, 2011

S.O. 1870 (21)- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Finance No. 1) (2009) number S.O. 1255(F) dated the 2<sup>nd</sup> December, 2009, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation in section 3(44) of the Income Tax Act, 1961 (45 of 1961), the Central Government had given approval number 1 (officially, the "Agriculture Project") by Japan India Foundation, NIFTVA House, 65, Mehrauli Kirti Road, Number - 400002, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2009-2010, which was extended by notification number S.O. 1019 (21) dated the 27<sup>th</sup> July, 2010 for a period of two years beginning with financial year 2008-2009 and which was extended further by notification number S.O. 2557(F) dated the 3<sup>rd</sup> October, 2008 for a period of three years beginning with financial year 2008-09.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eight years,

And whereas the Joint Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 114 of the Income Tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years,

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation in section 3(44) of the Income Tax Act, 1961 (45 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Agriculture Project" being executed by Japan India Foundation, NIFTVA House, 65, Mehrauli Kirti Road, Number - 400002, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with financial year 2011-12 to 2012-13, 2012-13 & 2013-14.

Sd/- (11/08/2011) (F.No. 279/332811-80(SA)) (11/08/11)

*(Signature)*

Yashwan Chandra  
Director (National) (Income)



TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART-II,  
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1<sup>st</sup> August, 2011

NOTIFICATION (I). Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 757(E) dated 13<sup>th</sup> March, 2009, issued under clause (a) of the Explanation to section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified in serial number 2, "Recruiting cost for (Inclusion of) Screening Programmes, Disease Management Programmes, Public Medicine programmes, Distribution of Air-Cast, Canes and Disability Aids, Equipments for Physiotherapy Centres, running cost of senior citizens' Homes" by Indian Red Cross Society, Gujarat State Branch, Red Cross Bhavan, Near Chudhi Ganga, Jyoti Board, Sakinaka Road, Vadaj, Ahmedabad - 380 015, Karnataka, as an eligible project or scheme for a period of three years commencing with financial year 2009-10;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond the aforesaid

period; and whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, there is a further recommendation under section 80G of the Income-tax Act, 1961 for extending the said project or scheme for a further period of three years and on this date the project cost about Rs. 9.52 crore, including a corpus fund of Rs. 50 lakh to Rs. 13.53 crore including corpus fund of Rs. 50 lakh;

Now, therefore, the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (a) of the Explanation to section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby extends the duration of project "Recruiting cost for (Inclusion of) Screening Programmes, Disease Management Programmes, Public Medicine programmes, Distribution of Air-Cast, Canes and Disability Aids, Equipments for Physiotherapy Centres, running cost of senior citizens' Homes" which is being executed by Indian Red Cross Society, Gujarat State Branch, Red Cross Bhavan, Near Chudhi Ganga, Jyoti Board, Sakinaka Road, Vadaj, Ahmedabad - 380 015, Karnataka, for a further period of three years commencing with the financial year 2011-12 to 2013-14.

The further extension period and cost, notified in serial number S.O. 757(E) dated on 13<sup>th</sup> March, 2009, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 1, in column (2), relating to maximum amount of expenditure to be eligible for deduction under section 80G of the Income-tax Act, 1961, for the purpose of serial number 2(a), there, including a corpus fund of Rs. 50 lakh, the words, figures and sum "Rs. 13.53 crore, including a corpus fund of Rs. 50 lakh" shall be substituted.

(No. 95-00) (T.N. 3/2015/2011-60) S.O. 113(E)

*M. Chandru*  
Navin Chandra  
Director, National Committee





NOTICE AND ADVISE

New Delhi, dated the 1<sup>st</sup> August, 2001

S.O. 1372E (1) - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1301E, dated the 1<sup>st</sup> March, 1993, and by notification of the Employer or person (33A) of the Income-tax Act, 1961 (47 of 1961) in force from the 1<sup>st</sup> April, 1993, the project titled "Construction of a centre for Cancer patients (Cancer Centre, Karnataka)" by Danaidasa Dasappa Trust, Old Indian Cancer Society, 1<sup>st</sup> Stage, 1<sup>st</sup> Main Road, HAL, 1<sup>st</sup> Stage, Bangalore - 560035, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1993-1994, which was extended further with notification number S.O.1291E, dated the 27<sup>th</sup> February, 2000 for a period of six years beginning with assessment year 2000-2001, which was extended further with notification number S.O. 275E dated the 9<sup>th</sup> December, 2002 for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004, which was extended further with notification number S.O.302E dated the 20<sup>th</sup> April, 2005 for a period of three years beginning with financial year 2005-2006 and which was extended further with notification number S.O. 2335E dated the 3<sup>rd</sup> October, 2006 for a period of three years beginning with financial year 2008-09;

And whereas a notification number S.O.1783E dated the 9<sup>th</sup> December, 2004 and which was further enhanced from Rs. 27.00 lakh to Rs. 25.00 lakh and vide notification number S.O.1874E, dated the 28<sup>th</sup> April, 2006 the amount was further enhanced from Rs. 25.00 lakh to Rs. 40 lakh and vide notification number S.O.2278E, dated the 1<sup>st</sup> October, 2006 the said amount was further enhanced from Rs. 40 lakh to Rs. 45.00 lakh;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond the period of three years;

And whereas the Central Government for the Promotion of Social and Economic Welfare being of the opinion that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (1) of rule 114 of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years and amending the limit of expenditure from Rs. 45.00 lakh to Rs. 60.00 lakh;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of the explanation to section 35(1) of the Income-tax Act, 1961 (47 of 1961) -

- (a) having made the said extension project construction equipments and furnishing of a 50 bed hospital for the care of the terminal & Cancer patients (Cancer Centre, Karnataka), being carried out by Danaidasa Dasappa Trust, Old Indian Cancer Society, New Chippasandra Main Road, HAL, 1<sup>st</sup> Stage, Bangalore - 560035 for a further period of three years commencing with the financial year 2008-09 to the financial year 2010-11 to the extent of Rs. 60.00 lakh;
- (b) in the amount the said notification number S.O. 1301E dated the 1<sup>st</sup> March, 1993, to the following: The amount:

To the extent of the amount in the said notification number 4, in column (B), relating to matters of a nature or kind to be allowed as deduction under section 35(1) of Income Tax Act, 1961, for the letters (i) and (ii) are Rs. 60.00 lakh in the letters (i) and (ii) are Rs. 20.00 lakh respectively.

(Sd/-) (30/07/2001) A. K. V. Prasad - SO (N.A. 1002)

*(Signature)*

Narasa Chandra  
Director (National Councils)



इसलिए, अग्रे, वेचने : संस्कार आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का. 43) को प्रांग 25 अ 3 के अधीकरण के अंत (अ) के साथ अतिर उगद 3 (1) के अ. 500 शंभेंतरी का प्रयोग करते हुए :

(अ) अंशान्त आस्तिर शून्य, भागिका इन्डिवेन् केंद्रर अंशान्त, लद्दु गिण्णारादि हैंत राठ, रच ए वल ताम शं राठ, रंगलेर-अभेउरकं त्रस अंशान्त कलंठक के अरन्तरन्त अच सं वेभार केंद्रर अन्ते से अंशान्त हेतु 50 शंभेंतरी के अरन्त के शिर्षान, अरन्तरी और सातन्तरी के शंभेंतरी तर्न 2011-12 से अरन्त रहे अने तरे के आने तरे. अंतरीय अने तरे अंशान्त अरन्त 2011-12, 2012-13 त 2013-14 के शंभेंतरी शंभेंतरी का शरंभन के अरन्तरे अंशान्तरीय करती है.

(अ) शिर्षान्त 10 अश 1997 की अरन्त अधिनियम संठे 40 और 180 (अ) तरे आने अरन्तरीयत राठ सं और शंभेंतरीय करती है. अरन्तरे.

अचत अधिनियमना ने अरन्तरे ने अरन्त 4 का अरन्तरे (1), शंभेंतरी आशक अधिनियम, 1956 को प्रांग 25 अ 3 के अंतरीय अरन्तरे के अच सं अरन्तरे अधिनियम ना. 11 की 211 से अरन्तरीय है, तरे 1979.10 अरन्तरे अरन्तरे अरन्तरे और अरन्तरे के अरन्तरे अरन्तरे अरन्तरे, अरन्तरे और अरन्तरे को अरन्तरीयतरीय करती अरन्तरे.

(तरे 17/12/2011 काठरीयो 27215/3/2311 अरन्तरीयतरीयतरीय)

*तरी अरन्तरे*

गर्वीय अरन्तरे

अरन्तरीयतरीयतरीय अरन्तरीयतरीय

JOINT PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II,  
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)  
GOVERNMENT OF INDIA,  
MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

74  
New Delhi, dated the 13<sup>th</sup> August, 2011

S.O. 1873 (ii) Whereas a notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) no. S.O. 173(E) dated the 14<sup>th</sup> December, 1995, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Provision to section 84C of the Income-tax Act, 1961 (1961 Act) of the Central Government and specified in serial number 13, for "Training of Para-medical aid services at 80008" by Kanchi Charitable Trust, C-220, Sector-19, NOIDA-201301, to the extent of a project or scheme for a period of three years beginning with financial year 1995-1996, which was extended further vide notification number S.O. 212(E) dated the 6<sup>th</sup> March, 1998 for a period of three years beginning with financial year 1996-1997, which was extended further vide notification number S.O. 182(E) dated the 15<sup>th</sup> September, 2002 for a period of three years beginning with financial year 1999-2000, which was extended further vide notification number S.O. 541(E) dated the 2<sup>nd</sup> February, 2006 for a period of three years beginning with financial year 2003-2004, which was extended further vide notification number S.O. 948(E) dated the 22<sup>nd</sup> March, 2010 for a period of three years beginning with financial year 2006-07:


And whereas by notification no. S.O. 120(E) dated the 16<sup>th</sup> March, 1998 the estimated cost was amended from Rs.40.00 lakh to Rs.75.00 lakh and was further extended upto S.O. 193(E) dated 16.5.2007, the estimated cost was amended from Rs. 75.00 lakh to Rs. 1.50 crore.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years.

And whereas the National Charitable Contribution of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, under the provisions under sub-rule (5) of rule 114A of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme upto a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Provision to section 84C of the Income-tax Act, 1961 (1961 Act) hereby specifies the scheme or project for "Training of Para-medical aid services at 80008", which is being carried out by Kanchi Charitable Trust, C-220, Sector-19, NOIDA-201301 without any change in the estimated cost of Rs.1.50 crore, as a complete project of social welfare service of three years commencing with the financial year 2011-12 upto and including the financial year 2013-14.

[No. 74/2011 of S.O. 20150/2011-80(N.A.F.004)]

  
Suman Chaudhri  
Director (National Initiatives)



NOTICE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,  
SECTION 3, SUB-SECTION (3);

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)  
\*\*\*\*\*

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 11<sup>th</sup> August, 2001

S.O. 1054, 2001— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 100(1) dated 11.08.2001 issued under clause (3) of the Explanation to section 55AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government has notified at serial number 1, "Corpus Fund for Siva Sukhri Sathya Sai Charitable Trust" by Siva Sukhri Sathya Sai Charitable Trust, No. 2, Peazhyanthar Koil Street, Alappakam, Chennai-600 016, as an eligible project or scheme for a period of three years (beginning with assessment year 2003-2004) which was extended further vide notification number S.O. 100(7) dated the 2<sup>nd</sup> Aug., 2001 for a period of two years beginning with financial year 2006-2007 and which was extended further vide notification number S.O. 146(3) dated the 1<sup>st</sup> June, 2008 for a period of three years commencing with financial year 2010-11;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eight years;

And, whereas the National Committee for the Extension of Section 55AC Exemption Schemes, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under section 55(1) of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years,

Now, therefore, in pursuance of the recommendation, the copies contained by sub-section (3) read with clause (3) of the Explanation to section 55AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereto notified the contents of which are "Corpus Fund for Siva Sukhri Sathya Sai Charitable Trust" being owned and managed by Siva Sukhri Sathya Sai Charitable Trust, No. 2, Peazhyanthar Koil Street, Alappakam, Chennai-600 016, will have any change in the approved cost of Rs 6100 lakh (approx) only, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2011-12 till the year 2013-14.

[Sd/-S (011) M.No. 27013/3001 (3)/NAT/COM]

*M. Srinivasulu*  
Member (Finance)  
Director (National Committee)



[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II,  
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE,  
Department of Revenue

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 1<sup>st</sup> August 2011

S.O. 1374-E.- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2379(Financ) dt. 18th June 2008, issued under clause (a) of the Explanation to section 80C of the Income Tax Act, 1961 (1961) of 1961, the Central Government notified as serial number 35 "Panchayat and primary school" by name Isaria Isaral Colony, Amliha Block, Bansi District, Narmada, A.P. Andhra Pradesh. (V.No.1984-2754-5) as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2008-09;

and whereas the said project or scheme is filed to extend beyond three years;

And, whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (2) of rule 113A of the Income Tax Rules, 1962 for extending the said period of advance for a further period of three years and extending the project serial No. 35, to serial No. 35-136, to include a corpus fund of Rs. 200 crore.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of its powers conferred by clause (a) of the Explanation to section 80C of the Income Tax Act, 1961 (1961) of 1961, do hereby notify the said project or scheme, "Panchayat and primary school", which is being executed by name Isaria Isaral Colony, Amliha Block, Bansi District, Narmada, A.P. Andhra Pradesh. (V.No.1984-2754-5) as an eligible project or scheme for a further period of three financial years commencing with the financial year 2011-12 to 2013-14, 2013-14 & 2013-14.

(b) further amends the said notification (S.O.2379(Financ)) dated the 18<sup>th</sup> October 2008, to the following effect, to wit:-

In the said notification, in serial number 35, in column (a) to be read as "Panchayat and primary school" to be allowed a deduction in the section of 37500 of Income Tax Act, 1961 for the later financial year and "Rs. 10,00 crore" the later figures and word "Rs. 200 crore" including a corpus fund of Rs. 2 crore" shall be substituted.

[Sd/-] 31/08/2011 (1984-2754-5) S.O.2379(Financ)

*(Signature)*

Naveen Chandra  
Director (National Committee)





TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,  
SECTION 3, SUB-SECTION (iii)  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 17<sup>th</sup> August, 2011

S.O. 1876 (E) - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O. 9911, dated the 11<sup>th</sup> February, 1996, read with sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 135A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified as serial number 8, the "Providing free food and other essential drugs to poor cancer patients in General wards of Cancer Institute at Chennai, Tamil Nadu" by the name "Project - 8(a) Food, Drug, Cash Bank Road, Gandhi Nagar, Chennai - 600020" as a eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 1998-99 which was extended further vide notification number S.O. 6267, dated the 30<sup>th</sup> September, 2001 for a period of three years beginning with financial year 2002-03 which was extended further vide notification number S.O. 1301 (E) dated the 2<sup>nd</sup> February, 2005 for a period of three years beginning with financial year 2004-05 which was extended further vide notification number S.O. 7011 dated the 29<sup>th</sup> March, 2007 for a period of three years beginning with financial year 2007-08 and which was extended further vide notification number S.O. 11437, dated the 17<sup>th</sup> May, 2010 for a period of three years beginning with financial year 2010-11.

Whereas by notification number S.O. 1841, dated the 23<sup>rd</sup> March, 2009, the estimated cost was enhanced from Rs. 5.56 crore to Rs. 7.40 crore;

And whereas the said project or scheme is likely to be carried out for three years;

And whereas the National Committee for Evaluation of Social and Economic Welfare, being constituted for the said project or scheme as a committee, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 135 of the Income-tax Act, 1961 to extend the said project or scheme concerning the project cost from Rs. 5.40 crore to Rs. 11.50 crore as an enhancement in the project cost of Rs. 6.10 crore;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 135A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specified the scheme or project for "Providing free food and other essential drugs to poor cancer patients in General wards of Cancer Institute at Chennai, Tamil Nadu" which is being carried out by The Director, Institute of Cancer, Cash Bank Road, Gandhi Nagar, Chennai - 600020.

(a) Under number 1 the title of Question Number 30, 36(7) dated the 11<sup>th</sup> January, 1978, should have been amended as follows:

In the said modification in the Table against serial number 3, in column (4), in place of the amount of tax to be allowed as deduction under section 16 of Income Tax Act, 1961 for the letters, figures and words "Rs. 100 crore or less" the words "Rs. 100 crore or less" shall be substituted.

(No. 57/2001-21, No. 270157/2001-02/NAT/10004)

*M. K. Das*  
Member (Finance)  
(Member, National Committee)



एक अधिसूचना की सहायता से क्रम सं १ के बॉटल (क), आ १ मूल अधिनियम, 1901 के धारा 86 का  
ग के अंतर्गत कारी के लाने अनुमति प्राप्त की अधिसूचना संखी सं १, सं १ धारा 86 के अंतर्गत  
8.20 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश और मद्रास के अंतर्गत 12 करोड़ रुपये के अंतर्गत 12.30 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश,  
आंध्र प्रदेश, एक ही अधिसूचना किया जाए।

(सं १११ (अ) १९०१) सं 27018/2011-04/१ (अ.सं.१)

सं. १११/११  
श्री १११  
निदेशक (आंध्र प्रदेश)

TO BE PRINTED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART-III,  
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE,  
Department of Revenue

NOTIFICATION

NO. 208/2011-12, dt. 11<sup>th</sup> August, 2011

S.O. 1817 (3). - Where as by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1117, dated the 8<sup>th</sup> August, 2005, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the explanation to section 25A(1) of the Income-tax Act, 1961 (15 of 1961), the Central Government had approved under serial number 6, "Construction of buildings for the education, rehabilitation, training and welfare of persons with disabilities of all categories" by Blind Welfare Council, Mission Road, Near Railway Crossing, P.O. Post No. 113, District 352001, Ujjain, as one of the projects to be carried out during a period of three years beginning with financial year 2005-2006 and which was extended further under notification number S.O. 7521 (3) dated 15<sup>th</sup> March, 2009 for a further period of three years beginning with the financial year 2008-09;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond five years;

And whereas the National Committee for Protection of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being examined properly, made a further extension under sub-rule 15, clause (1)(b) of the Income-tax Rules, 1962, for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government in exercise of the power conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the explanation to section 25A(1) of the Income-tax Act, 1961 (15 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Construction of buildings for the education, rehabilitation, training and welfare of persons with disabilities of all categories" being carried out by Blind Welfare Council, Mission Road, Near Railway Crossing, P.O. Post No. 113, District 352001, Ujjain, which was a change in the approved list of 85.5% projects as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2011-12 (ie 2011-12, 2012-13 & 2013-14).

[No. 208/2011-12, dt. 11<sup>th</sup> August 2011 S.O. (NAT.0066)]

*M. K. Srinivasan*

Navin K. Srinivasan  
Director (National Committee)



IT IS REPUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,  
SECTION 3 (SUBSECTION (ii))  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 1<sup>st</sup> August, 2011

§ 124(2) of the Constitution of the Government of India (The Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1980/2011 dated the 25<sup>th</sup> May, 2011, issued under sub-section (ii) read with clause (b) of the Explanation to section 35(6) of the Income Tax Act, 1961 (19 of 1961), the Central Government had notified an order under 13, "SPECIAL ASSISTANCE [Guzar Support Group] to set up a unit" by Sunhara Medical Foundation, Chennai, Shanti Colony, IV, K Avenue, Anna Nagar, Chennai, Tamil Nadu - 600040, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2007-2008 and which was initially notified under section 35(6)(b) of the said Act on 18<sup>th</sup> March, 2009 for a further period of three years beginning with the financial year 2008-09.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being, notified that the said project or scheme is being executed properly, and it is further recommended under sub-section (1) of section 35(6) of the said Act for extending the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (ii) read with clause (b) of the Explanation to section 35(6) of the said Act, 1961 (19 of 1961), hereby notifies the following as a unit "SPECIAL ASSISTANCE [Guzar Support Group] to set up a unit" which is being carried out by Sunhara Medical Foundation, Chennai, Shanti Colony, IV, K Avenue, Anna Nagar, Chennai, Tamil Nadu - 600040, without any change in the important details of the said unit, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2011-12, 2012-13 & 2013-14.

[Notified by the Secretary, Department of Revenue]

*(Signature)*

Narain Chandra  
Director (National Committee)





TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,  
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11<sup>th</sup> August, 2011

80048(F) :- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 481(F) dated the 29<sup>th</sup> March, 2007, issued under section 111 of Act No. 49 of 1961, clause (a) of the explanation to section 254C of the Income Tax Act, 1961 (Act No. 49 of 1961), the Central Government has notified as follows number 1, "Salga Bharati Schools (establishing & supporting 500 primary schools as well as non-formal education)" by Shri. K. Sundar, H-5012, Dept. of Revenue, Mahatma Road, New Delhi - 110050, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2007-2008 (the which was extended further vide notification number S.O. 48(F) dated 29<sup>th</sup> March, 2010 for a period of two years commencing with financial year 2010-11;

And whereas by notification number S.O. 48(F) dated 11<sup>th</sup> January, 2009, the estimated cost was estimated to be Rs. 15.00 crore, including a corpus fund of Rs. 0.00 crore in the 1<sup>st</sup> 3<sup>rd</sup> year including a corpus fund of Rs. 45.00 crore increasing the number of Salga Bharati Schools from 80 to 250;

And whereas the National Commission for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 113D of the Income Tax Rules, 1962 for an extension, the project cost has been revised to be Rs. 15.00 crore including a corpus fund of Rs. 15.00 crore including a corpus fund of Rs.50 crore increasing the number of Salga Bharati Schools from 250 to 500.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (a) of the explanation to section 254C of the Income Tax Act, 1961 (Act No. 49 of 1961) hereby notifies as follows as project "Salga Bharati Schools (establishing & supporting 500 primary schools as well as non-formal education)" which is being executed by Shri. K. Sundar, H-5012, Dept. of Revenue, Mahatma Road, New Delhi - 110050.

The further amended the said notification number S.O. 48(F) dated the 29<sup>th</sup> March, 2007, in the following manner, namely :-

In the said notification in the Table against serial number 2, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 254C for the letters figure 15.00 crore including a corpus fund of Rs. 45.00 crore, to be 15.00 crore and word "Rs. 15.00 crore including a corpus fund of Rs. 00 crore" shall be substituted.

(Sd/-) <sup>DR</sup> JAY P. SINGH, SECRETARY (901-50) (P&A), C.O. 501,

*(Signature)*

Naveen Chandra  
Director (National Committee)

(गारुड वे. राजपूत, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड(ii) में प्रकाशनाधीन)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 11 जनवरी, 2011

1239

सांठि आठ (अठ) अर्थात् आन्तरिक अधिनियम, 1981 (1981 का 43) की धारा 35 के तहत केन्द्रशासित प्रदेशों के वंड (अ) के अंतर्गत नगरीय नई भारत सरकार वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 29 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं० सांठि आठ 408 (अठ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने भारतीय फाइनेंसिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट्स, न्यू दिल्ली को, नई दिल्ली - 110030 द्वारा "सत्य भारतीय रकम (पब्लिक फाइनेंसिंग) लिमिटेड" की स्थापना एवं समर्थन" की परियोजना का स्वीकार केन्द्रीय वर्ष 2007-2008 से प्रारंभ होने वाले वर्षों में दीर्घकालीन ऋण वित्त परियोजना अथवा ऋण वित्त में क्रम सं० 1 पर आयुक्तिका किया गया जिसे बाद में दिनांक 22 मार्च, 2010 की अधिसूचना सं० सांठि आठ 648 (अठ) द्वारा केन्द्रीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाले वर्षों में दीर्घकालीन ऋण वित्त परियोजना अथवा ऋण वित्त में क्रम सं० 1 पर आयुक्तिका किया गया जिसे बाद में दिनांक 21 जनवरी, 2009 की अधिसूचना सं० सांठि आठ 247 (अठ) द्वारा असाधारण विद्यालयों की संख्या को 80 से बढ़ाकर 200 करने हेतु असाधारण आगत को 10.00 करोड़ रुपये की मात्रा में, अर्थात् 35.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 45.00 करोड़ रुपये की मात्रा में निर्धारित किया गया।

उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत आन्तरिक कर्षण को अधिसूचना के लिए राष्ट्रीय समिति का यह उपादान है: उक्त अधिसूचना अथवा अधिसूचना के अन्तर्गत परियोजना की जा रही है, उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत आन्तरिक कर्षण (5) के अन्तर्गत सत्य भारतीय रकम (पब्लिक फाइनेंसिंग) लिमिटेड को 250 से बढ़ाकर 500 करने हेतु परियोजना अथवा ऋण वित्त परियोजना की मात्रा में 15.00 करोड़ रुपये की मात्रा में निर्धारित किया गया जिसे बाद में दिनांक 21 जनवरी, 2009 की अधिसूचना सं० सांठि आठ 247 (अठ) द्वारा असाधारण विद्यालयों की संख्या को 80 से बढ़ाकर 200 करने हेतु असाधारण आगत को 10.00 करोड़ रुपये की मात्रा में, अर्थात् 35.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 45.00 करोड़ रुपये की मात्रा में निर्धारित किया गया।

असाधारण विद्यालयों की संख्या को 80 से बढ़ाकर 200 करने हेतु असाधारण आगत को 10.00 करोड़ रुपये की मात्रा में, अर्थात् 35.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 45.00 करोड़ रुपये की मात्रा में निर्धारित किया गया।

(सू) दिनांक 29 मार्च, 2007 को उक्त अधिसूचना सं. गां० अ० 486(अ०) में निम्नलिखित शीर्षक अंतर्भूत करती है, यथावत:

उक्त अधिसूचना में मारुती में क्लास 2 के मामले लिए फीजिया (4), की धारा 35 का अंश के अंतर्गत शर्तों के रूप में अनुमति जानकर की अधीकृतन वाशिंग मशीनें हैं, में '45,000 रुपये का कर्षण निधि शर्त' '15,000 रुपये का कर्षण' शब्द, अंतर्गत और अक्षर के स्थान पर '80 करोड़ रुपये की कार्यवाही निधि, 160 करोड़ रुपये' अक्षर, अंतर्गत और अक्षर प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

(सं०) 2007 का सं० 486(अ०) 27015/3/2007 का (नं०) 486(अ०)

श्री 2007 का  
तर्जित चन्द्र  
निदेश (राष्ट्रीय मामलों)

(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART II,  
SECTION 3 SUB-SECTION (iii)  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, India, the 11<sup>th</sup> August, 2011

S.O. 1320(F). Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.205(F) dated the 1<sup>st</sup> March, 1997, issued under sub-section (3) read with clause (c) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (Act of 1961), the Central Government had notified a project number 8, "Equipments and vehicle, moving of Two Diesel Generators at Mandapur, Rajasthan" by Trishul Energy Private Ltd., Charat, 8, Ashi LLL, Sakinaka Road, Account Jales, Ahmedabad, Gujarat - 380015, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997-1998, which was extended further vide notification number S.O.239(F) dated the 1<sup>st</sup> April, 1999 for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001, which was extended further vide notification number S.O. 420(F) dated the 29<sup>th</sup> January, 2004 for a period of three years beginning with financial year 2004-2005 and which was extended further vide notification number S.O. 2580(F) dated the 1<sup>st</sup> August, 2009 for a period of three years beginning with financial year 2009-10;

And whereas by notification number S.O.149(F) dated the 18<sup>th</sup> November, 1999 the original cost was enhanced from Rs. 26.25 lakhs to Rs.50.00 lakhs and vide notification number S.O.149(F) dated the 27<sup>th</sup> February, 2005 the original cost was further enhanced from Rs.50.00 lakhs to Rs.50.00 lakhs in a project cost fund of Rs.90 lakhs;

And whereas the said cost of scheme is likely to exceed beyond twelve years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 118 of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (Act of 1961) hereby notifies the scheme or project "Equipments and vehicle, moving of Two Diesel Generators at Mandapur, Rajasthan" being carried on by Trishul Energy Private Ltd., Charat, 8, Ashi LLL, Sakinaka Road, Account Jales, Ahmedabad, Gujarat - 380015, without any change in the approved cost of Rs.50.00 lakhs as a eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2010-11, 2011-12 and 2012-13, with a revised cost of the financial year 2010-11, which is already input, as the original cost stated in notification S.O. 149(F) dated the 18<sup>th</sup> November 2009.

No. 181/2011 (S.O.) 270150/2011 (S.O.) 1320(F)

*M. Chandan*

M. Chandan  
Director (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (I) में प्रकाशितार्थ)

भारत सरकार  
बिज्ज मंत्रालय  
(राजपत्र विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली दिनांक 11 अगस्त, 2011

1999

सं० आ० (अ०) नवम्बर अधिसूचना, 1981/1851 का 43) की तरफ 35 क  
ग में आपीकरण के खंड (ख) के साथ उचित उपयोग (1) अन्तगत जारी की गई अधिसू  
मा 1992, बिज्ज मंत्रालय, (राजपत्र विभाग) की दिनांक 17 मार्च, 1997 की अधिसूचना सं०  
ना० आ० 206 (अ०) द्वारा केन्द्रीय राजधानी के फेडरिंग काउन्सिलरों द्वारा, गिरिजापुर, B,  
08 की हिल्स, हरियाणा के त, श्रीरामपुर, मथाना, बटनवावावा, गुजरात-380015 द्वारा भारतक  
राजपत्र न में जेन असाधारण अधिसूचनाओं के लिए उपलब्ध एवं इच्छित, राजपत्र " की प्रसिद्धि  
को निर्धारण वर्ष 1997-1999 में प्रारंभ होने वाले वर्षों से तीन वर्षों की अवधि के लिए  
एक लाख एकेयर अथवा अधिक के क्षेत्र में कम से कम 8 मर निर्धारित किया था जिसे बाद  
में दिनांक 1 अक्टूबर, 1999 की अधिसूचना सं० ना० आ० 219 (अ०) द्वारा निर्धारण 20  
2000-2001 में प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बड़ा किया गया  
था जिसे बाद में दिनांक 22 फरवरी, 2005 की अधिसूचना सं० ना० आ० 140 (अ०)  
द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्षों से तीन वर्षों की अवधि के लिए  
और और अधिक किया गया था और जिसे बाद में दिनांक 11 अगस्त 2008 की अधिसूचना सं०  
ना० आ० 2369 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 में प्रारंभ होने वाले वर्षों से तीन वर्षों  
की अवधि के लिए और और अधिक किया गया था ;

और अधिसूचना सं० ना० आ० 10 अगस्त, 1999 की अधिसूचना सं० ना० आ० 140 (अ०) के  
द्वारा कृषि क्षेत्रों के 28.25 लाख एकड़ से बढ़कर 50.00 लाख एकड़ किया गया था तथा  
दिनांक 22 फरवरी, 2005 की अधिसूचना सं० ना० आ० 140 (अ०) के द्वारा जिसे और  
60.00 लाख से बढ़कर 80.00 लाख की मात्रा निर्धारित करके 50.00 लाख एकड़ किया गया  
था.

और जबकि ऊपर उल्लेखित मात्रा में क्षेत्रों में अधिक मात्रा की संभावना है;  
और जबकि सामाजिक और आर्थिक कारणों से अधिसूचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय गणित के उच्च  
समाप्ति हो जाने का निश्चित परिचय अथवा स्थिति का उल्लेख वर्ष से निश्चित क्षेत्रों को  
होती है, इस मानने से आवश्यक विधायक 1962 के विधान 11 के उप-विभाग (5) क



FOR THE PUBLICATION IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,  
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, on the 11<sup>th</sup> August, 2011

S.O. 18941-11. Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 12143 dated 12<sup>th</sup> January, 2009, clause (c) of sub-section (a) of section 55AC of the Income-tax Act, 1961 (Act of 1961) for Central Government had notified at serial number 15, 1547466, Anna Ambedkar Yojana (providing education, health & food for tribal & rural children) by Sarvika Shiksha Foundation, P.O. 45, Kote, Vaidi Road, Vile Parle (East), Mumbai - 400057, Maharashtra, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2008-09;

And whereas the said project or scheme is likely to continue beyond three years;

And whereas the National Committee for Extension of Food and Economic Welfare, being satisfied that the said member or members of the committee properly made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 114 of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (a) of section 55AC of the Income-tax Act, 1961 (Act of 1961), hereby notifies the extension of project or scheme, Anna Ambedkar Yojana (providing education, health & food for tribal & rural children), which is being carried out by Sarvika Shiksha Foundation, P.O. 45, Kote, Vaidi Road, Vile Parle (East), Mumbai - 400057, Maharashtra, without any change in the scope or cost of Rs. 40.70 crore including a corpus fund of Rs. 1.55 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2011-12 to 2013-14 & till 2014.

[No. 18941-11]

*(Signature)*  
Navneet Chander  
Director, National Committee





[NOTICE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,  
SECTION 3, SUB-SECTION (ii),  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 10<sup>th</sup> August, 1961

S.O. 1952- (7). Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1092 (7) dated 1<sup>st</sup> July, 1958, issued under clause (b) of the Explanation to section 44C of the Income-tax Act, 1952 (49 of 1952), the Central Government had notified a scheme, namely "Providing home for old aged persons and lonely children" by Mangal Daswan Trust, S.O. & C.O. Sector, District Patna (North-Central), Post Box No. 16, Ahmednagar-435201, as an eligible project or scheme for a period of five years beginning with financial year 1958-59:

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond five years,

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, under a further notification under sub-rule (b) of rule 114 of the Income-tax Rules, 1952 for extending the said project or scheme for a further period of five years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (a) of the Explanation to section 44C of the Income-tax Act, 1952 (49 of 1952) hereby notifies the scheme or project "Providing home for old aged persons and lonely children" which is being carried out by Mangal Daswan Trust, S.O. & C.O. Sector, District Patna (North-Central), Post Box No. 16, Ahmednagar-435201, without any change in its approved cost of Rs. 2,00,000 (two lakhs) including a corpus fund of Rs. 40 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of five financial years commencing with the financial year 1961-62 & 1962-63, 1963-64 & 1964-65.

[No. 1092 (7) of 1961, Government of India (Finance)]

*(Signature)*

Haroon Chaudhry  
Director (National Committee)

